

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 397 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक-एफ 1-115/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता है :-

1. सहसपुर लोहारा नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1.	पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
2.	रविदास वार्ड
3.	संत कबीर वार्ड
4.	मिनीमाता वार्ड
5.	गुरु घांसीदास वार्ड
6.	शहीद भगत सिंह वार्ड
7.	शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड
8.	डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड
9.	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
10.	महाराणा प्रताप वार्ड
11.	महात्मा गांधी वार्ड
12.	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
13.	रानी दुर्गावती वार्ड
14.	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
15.	स्वामी विवेकानंद वार्ड

## सहसपुर लोहारा नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

### वार्ड क्रमांक-01 (पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड)

- उत्तर - गोवर्धन गौरिया के मकान से सुतिया पाट कॉलोनी से लाला यादव के मकान होते हुए पीला बाई पटेल के मकान से कचरा बाई राजपूत के मकान तक।
- पूर्व - कचरा बाई राजपूत के मकान होते हुए बी.डी.एल श्रीवास्तव के मकान होते हुए सोने लाल साहू के मकान तक।
- दक्षिण - सोने लाल साहू के मकान से नया तालाब होते हुए कस्तुरबा बालिका आवासीय विद्यालय से होते हुए पुराना तालाब होते हुए जल संसाधन कार्यालय होते हुए जमात मंदिर से जानकी बाई यादव के मकान तक।
- पश्चिम - जानकी बाई यादव के मकान होते हुए चाहा बाई के मकान होते हुए गोवर्धन गौरिया के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक-02 (रविदास वार्ड)

- उत्तर - गोविंद पटेल के मकान से इन्दलू पटेल, घसिया पाली के मकान से विनय विष्वकर्मा के मकान तक।
- पूर्व - विनय विश्वकर्मा के मकान होते हुए छोटे खान के मकान से तितरा साहू के मकान तक।
- दक्षिण - तितरा साहू के मकान से बारेलाल साहू के मकान होते हुए छन्नू साहू मोहन साहू के मकान होते हुए रमेश साहू के मकान से कर्बला तालाब से अनुज साहू के मकान तक।
- पश्चिम - अनुज साहू के मकान से मनिहार साहू के मकान होते हुए गोविन्द पटेल के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक-03 (संत कबीर वार्ड)

- उत्तर - सावित्री पाली के मकान से यशवंत साहू के मकान से नीरा साहू के मकान, मंगली बाई साहू के मकान तक।
- पूर्व - मंगली बाई साहू के मकान से रामकुमार साहू के मकान तक।
- दक्षिण - रामकुमार साहू के मकान से उग्रसेन नागराज के मकान, कांजी हाउस होते हुए बुधारी पटेल के मकान तक।
- पश्चिम - बुधारी पटेल के मकान से जगेलाल पटेल के मकान से कृषि भूमि होते हुए सावित्री पाली के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक-04 (मिनीमाता वार्ड)

- उत्तर - छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल से वन डिपो होते हुए श्याम लाल साहू के मकान से शिशुपाल पटेल के मकान तक।
- पूर्व - शिशुपाल पटेल के मकान से पुरुषोत्तम के मकान होते हुए तिरीथ के मकान तक।
- दक्षिण - तिरीथ के मकान से शमशान घाट होते हुए धन कुंवर के मकान तक।
- पश्चिम - धनकुंवर के मकान से छ.ग.रा.विद्युत मण्डल तक।

**वार्ड क्रमांक-05 (गुरु घांसीदास वार्ड)**

- उत्तर - कमला बाई के मकान से पिरित के मकान होते हुए परदेशी के मकान तक।  
 पूर्व - परदेशी के मकान से भाऊ के मकान होते हुए शिवकुमार के मकान तक।  
 दक्षिण - शिवकुमार के मकान से दुर्गा, बुधारी के मकान होते हुए सेधवा के मकान तक।  
 पश्चिम - सेधवा के मकान से गौकरण, केजा लाल के मकान होते हुए कमला बाई के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक-06 (शहीद भगत सिंह वार्ड)**

- उत्तर - सोधी लाल पटेल के मकान से विनोद कुमार पटेल के मकान होते हुए गायत्री बाई पटेल के मकान तक।  
 पूर्व - गायत्री बाई पटेल के मकान से कड़रा पटेल के मकान होते हुए हीरा पटेल के मकान तक।  
 दक्षिण - हीरा पटेल के मकान से घनष्याम रजक के मकान होते हुए सुखी रजक के मकान तक।  
 पश्चिम - सुखी रजक के मकान से श्याम लाल पटेल के मकान होते हुए सोधी लाल पटेल के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक-07 (शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड)**

- उत्तर - मुकेश डग्गर के मकान से गंगदेव साहू के मकान होते हुए नागेन्द्र मिश्रा के मकान तक।  
 पूर्व - नागेन्द्र मिश्रा के मकान से मोहन द्विवेदी के मकान होते हुए दिलीप मिश्रा के मकान से नदी सरहद तक।  
 दक्षिण - नदी के पास स्थित रूप सिंह के मकान से गौर लाल के मकान होते हुए लक्ष्मण निषाद के मकान तक।  
 पश्चिम - लक्ष्मण निषाद के मकान से गुलजार बेग के मकान होते हुए मुकेश डग्गर के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक-08 (डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड)**

- उत्तर - कलाराम यादव के खाली मकान से पुराना तालाब तक।  
 पूर्व - पुराना तालाब से सतीष विश्वकर्मा के मकान से रूपेन्द्र पाण्डेय के मकान होते हुए त्रिलोकी शर्मा के मकान के आगे रवि नामदेव के दुकान तक।  
 दक्षिण - रवि नामदेव के दुकान से जयकरण श्रीवास्तव के मकान होते हुए गोल बंगला तक।  
 पश्चिम - गोल बंगला से भागवत सोनी के मकान होते हुए शरद बहेकर के मकान के आगे कलाराम यादव के खाली मकान तक।

**वार्ड क्रमांक-09 (पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड)**

- उत्तर - कुंवरिया मानिकपुरी के मकान से नया तालाब से पंप हाउस तक।  
 पूर्व - पंप हाउस से प्रेमलाल साहू के मकान होते हुए हनुमान मंदिर तक।  
 दक्षिण - हनुमान मंदिर से राजेन्द्र सोनी के मकान होते हुए चैनदास मानिकपुरी के मकान तक।  
 पश्चिम - चैनदास मानिकपुरी के मकान से रूपराम जायसवाल के मकान होते हुए कुंवरिया मानिकपुरी के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक-10 (महाराणा प्रताप वार्ड)**

- उत्तर - दिलीप जायसवाल के मकान से बराती राव, रजाक खान के मकान होते हुए अशोक चोपड़ा के मकान तक।
- पूर्व - अशोक चोपड़ा के मकान से स्टेट बैंक के आगे उत्तमचंद चोपड़ा के मकान होते हुए पी.के.मल्लिक के मकान के आगे नदी तक।
- दक्षिण - नदी से बसदेवा के मकान होते हुए रूपसिंह पटेल के मकान तक।
- पश्चिम - रूप सिंह पटेल के मकान से ज्ञानचंद का गोदाम होते हुए दिलीप जायसवाल के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक-11 (महात्मा गांधी वार्ड)**

- उत्तर - डॉ.बी.पी.लोही के मकान से शमशान घाट के आगे आदिवासी कन्या छात्रावास तक।
- पूर्व - आदिवासी कन्या छात्रावास से खेत होते हुए धीराजी पटेल के मकान तक।
- दक्षिण - धीराजी पटेल के मकान से उर्मिला ठाकुर के मकान होते हुए अनिल श्रीवास्तव के मकान तक।
- पश्चिम - अनिल श्रीवास्तव के मकान से मो.बशीर के मकान के आगे नया बस स्टैंड होते हुए डॉ.बी.पी.लोही के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक-12 (सुभाष चन्द्र बोस वार्ड)**

- उत्तर - थाना परिसर के उत्तर-पश्चिम (ट्रांसफार्मर) कोना से गायत्री मंदिर होते हुए नीलकंठ ठाकुर के मकान तक।
- पूर्व - नीलकंठ ठाकुर के मकान से फुलेल पटेल के मकान होते हुए नदी तक।
- दक्षिण - नदी से होते हुए ज्ञानचंद के बाड़ी तक।
- पश्चिम - ज्ञानचंद के बाड़ी से ज्ञानचंद के मकान से होते हुए थाना परिसर के उत्तर-पश्चिम (ट्रांसफार्मर) के कोना तक।

**वार्ड क्रमांक-13 (रानी दुर्गावती वार्ड)**

- उत्तर - रामनाथ यादव के दुकान से वनविभाग के विश्राम गृह होते हुए मंगलभवन के आगे पंचराम पटेल के मकान तक।
- पूर्व - पंचराम पटेल के मकान से बिहारी पटेल के मकान होते हुए तिरीथ पटेल के मकान तक।
- दक्षिण - तिरीथ पटेल के मकान से तहसील कार्यालय होते हुए शुलभ शौचालय तक।
- पश्चिम - शुलभ शौचालय से होरी लाल रजक के मकान के आगे बिसे पटेल के मकान होते हुए रामनाथ किराना दुकान तक।

**वार्ड क्रमांक-14 (रानी लक्ष्मी बाई वार्ड)**

- उत्तर - अनुज पटेल के मकान से सुखी पटेल के मकान होते हुए झुनु पटेल के मकान तक।
- पूर्व - झुनु पटेल के मकान से अनुज गंधर्व के मकान होते हुए ब्रम्हा पटेल के मकान तक।
- दक्षिण - ब्रम्हा पटेल के मकान से कृषि भूमि होते हुए रामचरण पटेल के मकान तक।
- पश्चिम - रामचरण पटेल के मकान से सरजू पटेल के मकान होते हुए अनुज पटेल के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक-15 (स्वामी विवेकानंद वार्ड)**

- उत्तर - राजेश राजपूत के मकान होते हुए टीकाराम मसीहा के मकान के आगे रमेश दास के मकान तक।
- पूर्व - रमेश दास के मकान से हरीलाल के मकान होते हुए पलटू पटेल के पंप हाउस तक।
- दक्षिण - पलटू पटेल के पंप हाउस से प्राथमिक शाला नयापारा होते हुए हरीलाल के मकान के आगे खिलावन के मकान होते हुए प्रकाश पटेल के मकान तक।
- पश्चिम - प्रकाश पटेल के मकान से खेत होते हुए राजेश राजपूत के मकान तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक एफ 1-115/2019/18 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-115/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

### NOTIFICATION

No. F1-115/2019/18 In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Sahaspur Lohara Distt. Kabirdham as per schedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Sahaspur Lohara into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

### SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Pt. Shyama Prasad Mukharji Ward
2	Ravidas Ward
3	Sant Kabeer Ward
4	Minimata Ward
5	Guru Ghashidas Ward
6	Sahid Bhagatsingh Ward
7	Shahid Veer Narayan Singh Ward
8	Dr. Bhim Rao Ambedkar Ward
9	Pt. Dindayal Upadhaya Ward
10	Maharana Pratap Ward
11	Mahatma Gandhi Ward
12	Shubhash Chandra Bosh Ward
13	Rani Durgawati Ward
14	Rani Laxmibai Ward
15	Swami Vivekanand Ward

**Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat**  
**Sahaspur Lohara**

**WARD NUMER 01-(Pt. SHYAMA PRASAD MUKHARJI WARD)**

- NORTH** — From the Govardhan Goriya's house to sutia pat colony to the Lala yadav's house. Passing Through Pila Bai Patel And Kachra Bai Rajput house.
- EAST** — Kachra Bai Rajput house passing B.D.L. Shrivstav up to Passing Sone lal Sahu's house.
- SOUTH** — From the Sone lal Sahu house over the Naya Talab K.G.B.V., Purana Talab to Irrigation office, Jamat Mandir to Janki Bai Yadav house.
- WEST** — Janki Bai Yadav house passing Chaha Bai house over the Govardhan Gauriya house.

**WARD NUMER 02-(RAVIDAS WARD)**

- NORTH** — From the house of Govind Patel, Passing the house of Indalu Patel, The house of Ghasiya Pali over to the house of Vinay Vishwakarma house.
- EAST** — From the houe Vinay Vishwakarma house passing to the Chhote Khan up to the house of Titra Sahu.
- SOUTH** — From the house of Titra Sahu Passing through the house of Barelal Sahu, Chhannulal Sahu. Over Mohan Sahu's house up to the Ramesh Sahu over the Karbala Talab to the house of Anuj Sahu.
- WEST** — From the house of Anuj Sahu Passing through the house Manihar Sahu to the house of Govind Patel.

**WARD NUMER 03-(SANT KABEER WARD)**

- NORTH** — From the house of Shavitri Pali Passing through the house of Yashwant sahu, Neera Sahu, up to the house of Mangli Bai Sahu.
- EAST** — From the houe of Mangli Bai Sahu to the house of Ramkumar Sahu.
- SOUTH** — From the house of Ramkumar Sahu passing Through the house of Ugreshen Nagraj, up to the house of Kanji house up to the Budhari Patel.
- WEST** — From the house of Budhari Patel to Jage Lal Patel passing Through the Cultivated Land up to the house of Savatri Pali.

**WARD NUMER 04-(MINIMATA WARD)**

- NORTH — From the Office of the C.G.C.S.E.B. Passing through the Forest Depo. Shyamlal Sahu's house up to the house of Shishupal Patel.
- EAST — From the house of Shishupal Patel passing Through the house of Purushottam up to the house of Tirith.
- SOUTH — From the house of Tirith, Over the graveyard (Shamshaan Ghat) up to the house of Dhan Kunwar.
- WEST — From the Dhankunwar's up to office for the C.G.C.S.E.B.

**WARD NUMER 05-(GURU GHASHIDAS WARD)**

- NORTH — From the house of Kamla Bai passing through the house of Pirit up to the house of Pardeshi
- EAST — From the house of Pardeshi passing through the house of Bhau up to the house of Shivkumar.
- SOUTH — From the Shivkumar's house through the house of Durga, Budhari up to the house of Sedhwa.
- WEST — From the Sedhwa house passing through the house of Gaukaran Kejalal up to the house of Kamla Bai.

**WARD NUMER 06-(SAHID BHAGATSINGH WARD)**

- NORTH — Starting from the house of Sodhi Lal Patel, passing through the home of Vinod Kumar Patel up to the home of Gayatri Bai Patel.
- EAST — From the house of Gyatri Bai Patel passing through the house of Kadra Patel up to the house of Heera Patel.
- SOUTH — From the house of Heera Patel, Passing through the house of Ghanshyam Rajak up to the house of Sukhi Rajak.
- WEST — From the house of the Sukhi Rajak passing Through the Shyam Lal Patel up to house of Sodhi Lal Patel.

**WARD NUMER 07 - ( SAHID VEER NARAYAN SINGH WARD)**

- NORTH — Starting from The Mukesh Daggar's house. Passing through the house of Gangdev Sahu to the house of Nagendra Mishra.
- EAST — From the house of Nagendra Mishra. Passing through the house of Mohan Dwivedy, Dilip Mishra straight up to the bank of the river.
- SOUTH — Starting from the house of Roop Singh's house situated near the river passing through the house of Gaur Lal up to the house of Lakshman Nishad.
- WEST — From the house of Lakshman Nishad, Passing through the house of Gulzar Beg up to the house of Mukesh Daggar.

**WARD NUMER 08 -(Dr. BHIMRAO AMBEDKAR WARD)**

- NORTH** — Starting from the no man house of Kala Ram Yadav upto the old pond (purana Talab)
- EAST** — From the old pond (purana Talab) passing through the house of Satish Vishwakarma, Rupendra Pandey, a head of the Triloki sharma house up to the shop of Ravi Namdev.
- SOUTH** — From the Shop of Ravi Namdev, Passing through the house of Jaikaran Shrivastava up to the Gol Bangla.
- WEST** — From the Gol Bangla Passing through the house of Bhaghwat Soni, straight a head the house of Sharad Bahekar up to the No-man house of Kalaram Yadav.

**WARD NUMER 09 -(Pt. DIN DAYAL UPADHAYA WARD)**

- NORTH** — From the house of kuwariya Manikpuri over the new pond upto the pump house.
- EAST** — From the pump house passing through the house of Premlal Sahu up to the Hanuman Temple.
- SOUTH** — From the Hanuman Temple Passing through the house of Rajendra Soni up to the house of Chaindas Manikpuri.
- WEST** — From the house of Chaindas Manikpuri Passing through the house of Roopram Jaiswal up to Kunwariya Manikpuri.

**WARD NUMER 10 -(MAHARANA PRATAP WARD)**

- NORTH** — From the house of Dilip Jaiswal Passing through the house of Barati Rao, Rajjak Khan up to the house of Ashok Chopra.
- EAST** — From the house of Ashok Chopra Passing through the State Bank Straight to the house of Uttamchand Chopra, P.K. Mallik's house till the river end.
- SOUTH** — From the End of River passing through the house of Basdeva up to the house of Roop singh patel.
- WEST** — From the house of Roop singh patel Passing through the Gyanchand godown upto the house of Dilip Jaiswal.

**WARD NUMER 11 -(MAHATMA GANDHI WARD)**

- NORTH** — From the house of Dr. B.P.Lohi Passing through ahead of the graveyard upto the Tribal Girls hostel.
- EAST** — From Tribal Girls hostel Passing through the Cultivated land upto the house of Dhiraji Patel.
- SOUTH** — From the house of Dhiraji Patel Passing through the house of Urmila Thakur upto Anil Shrivastava.
- WEST** — From the house of Anil Shrivastava, Straight of the mo.Bashir House Passing through the New Bus Stand up to the house of Dr.B.P.Lohi.

**WARD NUMER 12 -(SHUBHASH CHANDRA BOSH WARD)**

- NORTH** — From the North-West(Transformer) corner of police station campus,Passing through the Gayatri Temple up to the house of Nilkanth Thakur.
- EAST** — From the house of Nilkant Thakur Passing through the house of Fulel Patel up to the End of River.
- SOUTH** — From the End of River up to the Gyanchand's Badi.
- WEST** — From the Badi of Gyanchand Passing through the house of Gyanchand up to the N-W (Transformer) corner of Police Station Campus.

**WARD NUMER 13 -(RANI DURGAWATI WARD)**

- NORTH** — From the house of Ramnath Yadav passing over the Forest Rest house ahead of the Mangal Bhawan upto the house of Panchram Patel.
- EAST** — From the house of Panchram Patel Passing through the house of Bihari Patel up to the house of Tirith Patel.
- SOUTH** — From the house of Tirith Patel Passing through the Tahsil office up to the Shulabh Shouchalay.
- WEST** — From the Shulabh Shouchalay straight ahead of Horilal Rajak's house of Bise Patel upto the shop of Ramnath.

**WARD NUMER 14 -(RANI LAXMIBAI WARD)**

- NORTH** — From the house of Anuj Patel Passing through the house of Sukhi Patel up to the house of Jhunu Patel.
- EAST** — From the house of Jhunu Patel Passing through of Anuj Gandharva up to the house of Bramha Patel.
- SOUTH** — From the house of Bramha Patel Passing through the Cultivated land upto the house of Ramcharan Patel.
- WEST** — From the house of Ramcharan Patel Passing through the house of Sarju Patel up to the house of Anuj Patel.

**WARD NUMER 15 -SWAMI VIVEKANAND WARD)**

- NORTH** — Through the house of Rajesh Rajput ahead of the house of Tikaram Masiha up to the house of Ramesh Das.
- EAST** — From the house of Ramesh Das Passing through the house of Harilal up to the Pump house of Paltu Patel.
- SOUTH** — From the Pump house of Paltu Patel Passing through the Primary School of Navapara, ahead of the house of Harilal through the Khilawan's house up to the house of Prakash Patel.
- WEST** — From the house of Prakash Patel Passing through the agricul tural land up to the house of Rajesh Rajput.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,  
R.EKKA, Deputy Secretary.